



एक भारत श्रेष्ठ भारत

Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

31. Do you exercise every day?

ASSAMESE	আপুনি সদায় কচৰৎ কৰেনে?	Aapuni sodai kosorot korene?
BENGALI	আপনি কি রোজ ব্যায়াম করেন?	Aapni ki roz byayam koren?
BODO	नोंथांडा जेब्लायबो खसरत खालामो ना ?	Nwngthanga jayblaibw kosorot kalamw na?
DOGRI	केह भला तुस रोजाना कसरत करदे ओ?	Keh bhala tus rojaanaa kasarata karade o?
GUJARATI	શું તમે દરરોજ કસરત કરો છો?	Shu tame darroj kasrata karo chho?
HINDI	क्या आप रोजाना व्यायाम करते हैं?	Kya aap rozana vyaayaam karte hain?
KANNADA	ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?	Neevu pratidina vyayama maadutteera?
KASHMIRI	توی چھوا پڑتھ دوپہہ ورزش کران؟	Tuih chewa prath doah warzish karan?
KONKANI	तूं दिसपट्टो व्यायाम करता?	Tum dispatto vyaayaam kartaa?
MAITHILI	की अहाँ प्रतिदिन व्यायाम करैत छी?	Ki ahan pratidin vyayam karait chi?
MALAYALAM	നിങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ടോ?	Ningal ellaa divasavum vyaayaamam cheyyaarundo?
MANIPURI	অদোম নুমিৎ খুদিংগী শাজেল শান্নরবা ?	Adom numit khuding gi sajel toubara?
MARATHI	तुम्ही दररोज व्यायाम करता का?	Tumhi darroj vyaayaam kartaa kaa?
NEPALI	के तपाईं दिनहुँ व्यायाम गर्नुहुन्छ?	Ke tapai dinahu vyawam garnu huncha?

ODIA	ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ କି?	Apana pratidina byayama karanti ki?
PUNJABI	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?	Ki tusi har roz kasrat karde ho?
SANSKRIT	भवान् प्रतिदिनं व्यायामं करोति किम् ?	Bhavaan pratidinan vyaayaaman karoti kim?
SANTALI	चित् आम् दो रोज दहलोक एक्सरसाईज दा?	Chit' aam do roj holik exercise da?
SINDHI	چا توهان هرروز ڪثرت ڪندا آهيو؟	Chhaa tawhan har roz kasrat kandaa aahiyo?
TAMIL	தினமும் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்களா ?	Thinamum neengal udarpayirchi seikireergala?
TELUGU	మీరు ప్రతి రోజు వ్యాయామం చేస్తారా?	Mīru prati rōjū vyāyāmaṁ cēstārā?
URDU	کیا آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں؟	Kya aap rozana warzish karte hain?